



Class: 2nd Date: 23rd May, 2020

Subject: English

Fill in the blanks .

(1) Dawn had lit a candle at the church for(ten/twenty) years.

(2) Dawn.....(rudely/politely) asked the girl where the woman was.

(3) Dawn chose a.....(pink/vanilla) candle for herself.

(4) Dawn offered the girl a lot of money .She was.....(hurt/thankful).

Write in notebook.

Class: 2nd Subject: Maths

Add and write the answer in Roman numerals.

$12+23= \underline{\hspace{2cm}}$

$43+5= \underline{\hspace{2cm}}$

$34+6= \underline{\hspace{2cm}}$

$23+9= \underline{\hspace{2cm}}$

$10+20= \underline{\hspace{2cm}}$

$14+18= \underline{\hspace{2cm}}$

$22+10= \underline{\hspace{2cm}}$

$42+3= \underline{\hspace{2cm}}$

$15+16= \underline{\hspace{2cm}}$

$19+12= \underline{\hspace{2cm}}$

40+8=_____

9+8=_____


12+13=_____

Write in notebook.

Class: 2nd Subject: EVS


Lesson -6

Read page 38 and let's Recap and learn question A,B on page 39 .



Have proper rest and sleep

We should also have proper rest and a good sleep. Proper rest and a sound sleep help to relax our body.






Play outdoors to keep your body fit

Playing outdoor games is also essential to keep our body fit and fine.

DO YOU KNOW? When we sleep, our body heals itself and removes waste that builds up in the body during periods of activity.

ACTIVITY

Tick (✓) the activities which are good for health and cross (x) those which are not:



38

Let's Recap

Good Health

Things and activities which are good for health

Healthy habits

Balanced Diet, Regular exercise, Proper rest and good sleep, Playing outdoor games

Get up on time, Wear clean clothes, Take a shower daily, Brush teeth two times a day, Eat healthy food

EXercise

LET US ANSWER

A. Tick (✓) the correct answer:

- A/an _____ diet has all essential nutrients in right proportion.
(i) balanced (ii) imbalanced (iii) unhealthy
- Cheese is a _____.
(i) fruit (ii) milk product (iii) pulse
- _____ is junk food item.
(i) Milk (ii) Vegetables (iii) Chips

B. Fill in the blanks:

- Noodles are _____ for health. (good/bad)
- Pizza is a _____ food. (junk/healthy)
- Playing outdoors keeps our body _____. (fit/week)

39

प्र0 ख और ग बुक में लिखे व याद करें ।

(ख) दिए गए प्रश्नों के लिए उत्तर का सही (✓) विकल्प चुनिए-

1. इब्न बतूता के पैर में क्या था?

- (क) जुराब (ख) चप्पल (ग) जूता

2. तूफ़ान की हवा कहाँ घुस गई थी?

- (क) कान में (ख) नाक में (ग) दोनों में

3. जूता उड़कर कहाँ पहुँच गया था?

- (क) जापान (ख) ईरान (ग) पाकिस्तान

4. इब्न बतूता किसकी दुकान पर गया?

- (क) नाई (ख) मोची (ग) धोबी

(ग) कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए-

इब्न बतूता

..... पड़े, तूफ़ान में।

थोड़ी हवा घुस गई,

थोड़ी घुस गई

Class: 2nd Subject: G.K.

Q. 1 Name the animal that cannot jump.

Ans= Elephant

Q. 2 Which animal never sleeps?

Ans = Bullfrog

Q. 3 How many legs does a mosquito have?

Ans =Six

Q. 4 Which animal has the longest memory?

Ans = Dolphin

Q. 5 Which animal does not drink water?

Ans= Kangaroo rat

Write and Learn G.K. questions in notebook.